PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED

June 19, 2024

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata – 700 001

<u>Sub: Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Ref: Newspaper Advertisement regarding dispatch of notice of 129th Annual General Meeting (AGM) and Annual Report for financial year 2023-24

Dear Sir,

Please note that the 129th AGM of P N B Finance and Industries Limited is to be held on Wednesday, July 10, 2024 at 10:30 A.M. IST through Video Conference (VC) and the same shall be conducted in compliance with circulars issued by Ministry of Company Affairs and Securities and Exchange Board of India.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual report for financial year 2023-24 have been sent to the members on June 18, 2024 whose email id's were registered with the Company or depository as on June 14, 2024.

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, the Company has published notice in this regard, in Financial Express (all edition) in English and in Pioneer (Delhi edition) in Hindi on June 19, 2024 with subject line "Notice of the 129th Annual General Meeting, Remote E voting information".

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The advertisement copies are also available on the Company's website.

This is for your information and records.

For PNB Finance and Industries Limited

Shweta Saxena

Director & Company Secretary
DIN: 03120958 & M. No. A18585

WAITING FOR THE KILL

How to bell the big cat



LEENA GUPTA

Founding member & creative, Talented

"THE WORLD'S BEST work faced feedback, survived, and then won a Lion," said an ad at the festival of creativity and commerce, the Cannes Lions 2024. But what does it take to think of that Lion-worthy work in the first place? Armed with my to-go croissants and a petit cappuccino, I set off at 9:30 am on a Tuesday morning, to find what it takes to bell the big cat.

The day began with a pop-in at the Glass Lion's presentation (work that addresses gender inequality). It's not every day that a communication brief is answered with a product idea but Ogilvy's pitch to Vaseline, and today to the jury, was just that: Transition Body Lotion to soothe dry skin for when you're undergoing hormone therapy during transition. This case study is a good blueprint for queer advertising that happens back home —LGBTQIA+ inclu-

METALS & SHORTLISTS SO FAR

At the time of this copy going to press, Indian agencies had bagged 1 Silver and 4 Bronze metals on Day 2, with 54 shortlists. This took India's total tally to 1 Gold, 2 Silvers and 6 Bronzes. McCann Worldgroup got the Gold metal on Day 1 for Buckaroo's 'Fit My Feet' campaign.



	THE WINNERS						
- 人物 - 网络	Agency	Gold	Silver	Bronze			
	McCann Worldgroup	1		1			
	Ogilvy India		1	2			
	Leo Burnett India			1			
	Early Man Film		1	1			
	VML India			1			

sion isn't a box you tick after including a token gay character in your film, it's about solving nuanced problems for the community that can only come to light when you employ queer folks. It's also a good blueprint for clients — the folks at Vaseline didn't just buy this idea as a Pride month gimmick, they committed to developing this idea with trans beauty specialists through months of R&D.

Right after was a talk on decoding pricing models in the creative business by Gautam Reghunath and PG Aditiya, cofounders of my indie agency,

that absurd? You don't go to a restaurant and ask the chef's salary before you pay for your Bolognese!" Everything that's wrong with our industry — the hours, burnout, peanut salaries, can all be solved by pricing conversations where we see ourselves as equal to the client.

The next session I attended had a queue that would put Dadar station to shame — it was on the Return of Comedy by VML, Hellman's and SNL star Kenan Thompson. "85% of consumers say they are more likely to purchase a product after seeing a funny ad," they said — and


with the addition of 13 new categories at the Lions this year, it's safe to say the industry is ready to treat laughter as serious business. Humour tickles you, humour unifies you, for a brief moment in time it also disarms you.

Hellmann's Mayo Cat, a funny no-brainer, was actually born out of a real problem to tackle foodwastage, which just goes on to show that purpose-led advertising can exist without black-andwhitevisuals and sarangi music.

My last panel for the day was the Indie Forum on the LBB Beach — executives from indie agencies across the world bearing what it means to be in the "people" business. With the looming irrelevance that we face in the wake of AI automation, Matt Reinhard of OKRP had a fun hack: "We use AI for every new business pitch. We go on to ChatGPT, and ask it to spit five ideas. And then we use those five as white space — if AI can think of it, anyone can, and we wouldn't even think in that direction."

So, until the next time the industry congregates along the opal waters over rose and our collective quasi-artistic rage, advertising will very much still be a people's business, solving real problems with real human creativity.

Kohli is most valued celebrity; King Khan makes a comeback





Dhoni

Sachin



Deepika Padukone 96

95.8

Tendulkar 91.3

Amitabh Bachchan

Salman Khan 81.7

83.6

Fringes to Paris Olympics: How journeyman Balaji got his lucky break

NAMIT KUMAR New Delhi, June 18

EARLIER THIS MONTH, Sriram Balaji, the World No. 62 and the third-highest ranked Indian doubles tennis player, arrived in Paris uncertain if he was playing the French Open at all. Typically fickle Parisian weather meant there were enough withdrawals by singles players in doubles category for Balaji, alongside Mexican partner Miguel Reyes-Var-

ela, to make it to the main draw. He would leave the French capital with 3 solid Grand Slam matches under his belt, his best-

ever finish at a Major, and more importantly, ensuring his return ticket to Paris next month.

Balaji has been picked by World No. 4 Rohan Bopanna to partner him in the men's doubles category for the upcoming Paris Olympics, ousting the higher-ranked Yuki Bhambri to make it to his first Games.

cific to Balaji's game, perhaps it was the match he played against Bopanna in Round 3. Perhaps Bopanna's decision was premeditated. Yet, there is little doubt that Balaji's leap of faith, to arrive at Roland Garros even

though he was uncertain to play when he could have earned prize money and ranking points elsewhere, paid off in extraordinary fashion. "When I got there, we were sixth out (as alternates) so I was not sure we'll get into the draw," he said from London, where he has travelled to play a Challenger event on grass. "And Perhaps it is strengths speas soon as we got into the draw, it was like a bonus for us. We didn't have anything to lose. We were just playing free and just

CANNES

Talented. "Clients ask agencies

for details like salary and over-

head costs, and profit margins

before onboarding them — isn't

and then it worked actually." For players outside the very elite, they often go through the

focusing on every point by point



Sriram Balaji will partner Rohan Bopanna in Paris

Vikas Chandra

dilemma of travelling to Majors despite being uncertain they will even play. The financial burdens can be high for very little return. But Balaji, currently based out of Frankfurt, Germany, says he did not mind the uncertainty, being able to experience the Grand Slam atmosphere was enough. "There's no 'faith'oranything, but that's the risk you're supposed to take. If it works, it works..." he added.

Now 34, Balaii had been somewhat of a promising junior before his career tailed off due to injuries and typical malaise of making the tough transition to

the seniors. Even as he accepted his limitations and switched track to doubles, his parents continued to provide support. His may seem like the case of a typical tennis journeyman; this is essentially a sport that only does enough to support its top 100 players. But his run at the French Open and Olympics callup has renewed faith. It was the third-round match

against Bopanna that showed many of Balaji's strengths on clay; while Bopanna will claim didn't sway his decision, it's hard to think it did not have any impact. Balaji is quite certain it

wasn't the turning point though."No,no,no,itwasn't just the match. He also told me, one or two weeks before, he hinted that I'm one of the potential partners, me or Yuki," he said. Balaji insists it was his results

on slow clay at Challenger events, and his consistency. He elaborates on how playing styles may also be complementary, which may be why Bopanna opted to partner him instead of Bhambri. "Both of us have big serves, so hopefully we make the maximum use of it. And then Bops has big returns also, an overall big game," he said.

NMDC Limited -23536740, 23538713 to 23538721 Ext: 535 (CIN) - L13100TG1958GOI00167-EMAIL: kvprakash@nmdc.co.in; jvenkatesan@nmdc.co.in Open Tender Notice (E-Procurement Mode Only) invited for following items from reputed manufactures directly of

through their dealers/accredited agents through MSTC porta vebsite https://www.mstcecommerce.com/eprocn/

SI.	Tender No & Date	Description	(No)	Meeting	Sale of Tender Documents Period	Time for submission of offer
*	HQMM/2007-22/ 1100000429/1100001083/ 1100001660/30000206/ 1100001123/434 Dtd. 18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/ HeadOffice/Material Management/1/24-25/ ET/251)	Supply and Supervision of E & C of 06 Nos. 4" Top Hammer Drill along with 6 Yrs. /10000 Hrs. COST CAP, whichever is earlier	06	27.06.2024 at 11:30 AM (IST)	FINAL 11.07.2024 to 31.07.2024	31.07,2024 By 02.30 PM (IST)
2	HQMM/2012-23/ 30000225/1100001681/ 1100001690/ 1700001715/433 Dtd. 18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/ HeadOffice/Material Management/1/24-25/ ET/250)	Supply and Supervision of E & C of 04 Nos. 6" Diesel Driven, Blast Hole Drill along with 6 Yrs/ 12000 Hrs. COST CAP, whichever is earlier.	04	27.06.2024 at 04:00 PM (IST)	FINAL 11.07.2024 to 31.07.2024	31.07,2024 By 02.30 PM (IST)

	1100001123/434 Dtd.18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/ HeadOffice/Material Management/1/24-25/ ET/251)	4" Top Hammer Drill along with 6 Yrs. /10000 Hrs. COST CAP, whichever is earlier		(IST)	31.07.2024	((31)
2	HQMM/2012-23/ 30000225/1100001681/ 1100001690/ 1700001715/433 Dtd. 18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/ HeadOffice/Material Management/1/24-25/	Supply and Supervision of E & C of 04 Nos. 6" Diesel Driven, Blast Hole Drill along with 6 Yrs/ 12000 Hrs. COST CAP, whichever	04	27.06.2024 at 04:00 PM (IST)	FINAL 11.07.2024 to 31.07.2024	31.07,2024 By 02.30 PM (IST)

https://mstcecommerce.com and may download the tender documents. Any corrigendum to the above tender notice will be uploaded on our website and MSTC e-portal only. GM (Materials)

XPRO INDIA LIMITED

xp<u>ro</u>india Registered Office: Bariora Meija Road, P.O. - Ghutgoria

Tehsil - Barjora, Dist. - Bankura, West Bengal - 722 202 Tel.: 91-9775301701, Email: cosec@xproindia.com; Website: www.xproindia.com

Information regarding 27th Annual General Meeting Shareholders may please note that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on Monday, July 29, 2024 at 10.30 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable

circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board

of India (SEBI), to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM dated In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the 27th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the

Company's website at www.xproindia.com and on the website of the Stock Exchanges. Manner of registering/updating e-mail addresses : For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested copy), AADHAAR (self-attested copy) and Form ISR -1 (available on the website

of the Company) by email to Company (cosec@xproindia.com)/RTA

(mt.helpdesk@linkintime.co.in). For Demat shareholders - please update your e-mail id and mobile number with your

respective Depository Participant (DP). For Individual Demat shareholders - please update your e-mail ID and mobile number with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-voting and joining virtual meeting through Depository.

Manner of voting at the AGM:

Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting

The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available

to the Shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.

The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the

Manner of registering mandate of receiving Dividend (if any) electronically Shareholders are requested to update their complete bank details with their Depositories. (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company/RTA (where shares are held in physical mode) at cosec@xproindia.com / rnt.helpdesk@linkintime.co.in-along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested copy of PAN card, cancelled cheque leaf and other applicable documents.

By order of the Board Place : Kolkata Kamal Kishor Sewoda Dated : June 18, 2024 Company Secretary

optiemus optiemus infracom limited Registered Office: K-20, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi-110024

Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 Website: www.optiemus.com | E-mail: info@optiemus.com | Ph: 011-29840906

PRESS ADVERTISEMENT						
	e following Share Certificates have been reported a h Share Certificates has applied to Company for the is					

No	Folio No.	Shareholder	No(s).	Distinctive No(s).	Shares	
1.	0000378	B K Aggarwal	23950-23992	2394101-2398400	4,300	
		To	ital	Mar and a second	4,300	
such	claim(s) with	the Company Option	nus Infracom Limite	ve share certificates shod at its Corporate Offi te at info@optiemus.	ice situated	

15 days of the publication of this NOTICE, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue the Duplicate Share Certificates. FOR OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Date: 18th June, 2024 Place: Noida Company Secretary & Compliance Officer

PNB Finance and Industries Limited

CIN No.:-L65929DL1947PLC001240; Website: www.pnbfinanceandindustries.com gd. Office: - 1" Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Telephone:- +91-7303495375; E - mail : pnbfinanceindustries@gmail.com

NOTICE OF THE 129™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 129" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be convened on Wednesday, July 10, 2024 at 10:30 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") facility only without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of the 129" AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with circulars no. 20/2020, 02/2022 and 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "relevant circulars").

In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annua Report for the financial year 2023-24 have been sent to the members on June 18, 2024 whose email-IDs are registered with the depositories/Company as on June 14, 2024. This communication and the notice along with the Annual Report for 2023-24 are also available at Company's website: www.pnbfinanceandindustries.com and NDSL's website:

The Register of Members and Share Transfers Books of the Company shall remain closed from July 04, 2024 to July 10, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In accordance with the provision of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company has availed services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to its members. The members may note below with respect to the remote e-voting services as availed by the Company:

The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 129" AGM, will be transacted through voting by electronic means;

Date and time of commencement of remote e-voting; July 06, 2024 (9:00 A.M.); Date and time of end of remote e-voting: July 09, 2024 (5.00 P.M.);

The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 129" AGM is July 03, 2024;

Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member; the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.

5. Any person, who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but before the cut-off date i.e. July 03, 2024, may cast their vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and NSDL. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-Voting then the existing user ID and password can be used

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - pallavid@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. For PNB Finance and Industries Limited

Date : June 18, 2024

Shweta Saxena

financialexp.epapr.in

Director & Company Secretary

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for



New Delhi

अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का अनोखा रिश्ताः व्हाइट हाउस

दुनिया के दो सबसे पुराने व सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का एक अनुठा रिश्ता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का भारत दौरा सुरक्षित तथा अधिक समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए इस साझेदारी को और गहरा करेगा। व्हाइट हाउस ने यह बात कही।सुलिवन 17 से 18 जून तक नई दिल्ली की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो बाइडन प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा है। सुलिवन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय संरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने

अमेरिकी सीनेटर और व्यापार जगत ने भारत-अमेरिक के बीच मजबूत संबंधों की वकालत की

वाशिंगटन। अमेरिक केदो प्रभावशाली सीनेटर केसाथ-साथ व्यापार जगत केदिग्गजो ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने क आह्वान किया है। सीनेटर स्टीव डैनेस ने सोमवार को कहा, हम चाहते है कि भारत और अमेरिक के बीच गहरे संबंध हो और साथ दी दोनो देश बहुत अच्छे मित्र बने। डैनेस, यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (युएसआईएसपीएफ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जॉन चैबर्स और सीनेटर डैन सुलिवन साथ मौजूद थे। मोटाना के सीनेटर ने कहा, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर यह बहुत जरूरी है कि हमें साफ-साफ पता हो कि अच्छे लोग क्वैन है और हम उनके साथ संबंधों को कैसे बनाए रखना चाहते है या फिर संबंधों को कैसे मजबूत करना चाहते है। अच्छे लोगों से मतलब अमेरिका और भारत है। डैनेस ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंधो पर चीन की नजर है। बहुत से देश ऐतिहासिक शिक्तयतों क शिकर है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह नया युग वास्तव में सत्तावादी आक्रमकता के युग की वापसी है, जो आने वाले वर्षों और दशको तक हमारे साथ रहने वाला है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह का जिक्र करते हुए कहा कि बाड के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को गहरा, व्यापक और अधिक मजबूत बनाने वी जरूरत है। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष जॉन चैबर्स ने कहा कि क्रीम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेस (एआई) दोनो देशो को एक साथ आने और आगे क्या होने वाला है, इसक पूरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पहचानना वार्क्ड जरूरी है कि हम सत्तावादी आक्रमक्ता के एक ऐसे नए युग में है, जिसका अगुवाई शी चिनफिंग व पुतिन और ईरान मे अयातुल्ला तथा उत्तर व्वेरिया में किम जोग-उन कर रहे हैं। वे सभी एक साथ व्रम कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों के निर्माण में भारतवंशियों ने अहम भूमिका निभाई : टंडन

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच संबंध निर्माण करने और उन्हें मजबूत बनाने में भारतीय अमेरिकियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस की एक शीर्ष अधिकारी नीरा टंडन ने यह बात कही।राष्ट्रपति जो बाइडन की घरेलू नीति सलाहकर टंडन ने सोमवार के यूएस-इंडिया स्ट्रेटेनिक एंड पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के सातवे वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत टिम रोमर के साथ बातचीत में यह बात कही।उन्होंने कहा, मै वाकई मानती हुं कि आज अमेरिका और भारत के रिश्ते जिस मुक्तम पर है, उसे बनाने में प्रवासी समुदाय ने बहुत बडी भूमिका निभाई है।

कहा, विश्व के दो सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का एक अनोखा रिश्ता है तथा सुलिवन का दौरा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाएगा ताकि सुरक्षित और अधिक समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण हो सके।स्लिवन नई दिल्ली में अमेरिका-इंडिया इनीशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस पहल को आईसीईटी के नाम से भी जाना जाता है।उन्होंने कहा कि यह पहल अंतरिक्ष. सेमीकंडक्टर. दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ उर्जा सहित प्रमख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी है।

भारत की नई सरकार के साथ बातचीत करने का एक अवसर देखते हैं : ट्रूडो

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने भारत और कनाडा के संबंधों में खटास के बीच इटली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी पहली बातचीत के कुछ दिनों बाद कहा है कि भारत के साथ कई बड़े मुद्दीं पर समन्वये है और वह भारत की नई सरकार के साथ आर्थिक संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसरै देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक लाइन में कहा गया था कि जी 7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टडो से मलाकात



हुई। दक्षिणी इटली के अपुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई यह बैठक खालिस्तानी चरमपंथ को लेकर दोनों देशों के राजनियक संबंधों में तनाव आने के बीच पहली थी। दोनों देशों के राजनियक संबंधों में तब तनाव आ गया था जब टुडो ने पिछले साल सितंबर में सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। ओटावा लौटने

ईरान में अस्पताल में

ईरान के उत्तरी हिस्से में स्थित एक

अस्पताल में आग लग गई, जिसमें नौ

मरीजों की मौत हो गई। सरकारी

मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी

दी। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि

राजधानी तेहरान से उत्तर-पश्चिम में

लगभग 330 किलोमीटर दूर रश्त शहर के

कायम अस्पताल में स्थानीय समयानुसार

कल देर रात एक बज कर करीब तीस

मिनट पर आग लग गई, जिसमें छह

महिलाओं और तीन पुरुषों की मौत हो गई।

शहर के अग्निशमन विभाग के प्रमुख

कि बेसमेंट में बिजली का शॉर्ट सर्किट

हुआ जिससे आग लग गई।

आग लगने से नौ

मरीजों की मौत

के बाद टडो ने सीबीसी न्यूज को बताया कि शिखर सम्मेलन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको विभिन्न नेताओं के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है, जिनके साथ विभिन्न मुद्दे हैं और निश्चित रूप से भारत के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के साथ ही वास्तव में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध हैं। उन्होंने कहा, कई बड़े मुद्दों पर सहमति है, जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जब वह (मोदी) चुनाव जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बातचीत करने का अवसर है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने और कानून के शासन से जुड़े कुछ बहुत गंभीर मुद्दे शामिल हैं।

Be it known to all through this Publi lotice that My clients Mr. Kamal Kapoo Vo Late Shri Vishwajeet Kapoor. It i

formed to the public that the above entlioned photographs are of Lokest ulati and the Chirag Gulati whoeve

formation to the below mentioned name rill be awarded by Rs.100000/-and the ame of the informant will be kept secret.

The above mentioned Chirag Gulati i

ord gender and he also loves my nepher and want to marry him but, I an completely against the third gende

rriage, and can't accept. It is believe at the Chirag Gulati will try to contact so at they both could abscond.

Contact to : Mr. Kamal Kapon

Ch. No.512 Western Wing. Tis Hazari Cour Near Shiv Mandir, Mob.989120073

ASHWANI kUMAR(Advocate

अमेरिक के कोलोराडो में दो इंजन वाला सेसना विमान दुर्घटनाग्रस्त, कोई जीवित नहीं बचा

भाषा। स्टीमबोट स्प्रिंग्स (अमेरिका)

अमेरिका के उत्तर-मध्य कोलोराडो में एक आवासीय क्षेत्र में सोमवार को दो इंजन वाला सेसना विमान दुर्घनाग्रस्त हो गया और हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिससे दो मोबाइल घर (सचल घर) जल गए। संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि दुर्घटनाग्रस्त सेसना ४२१ विमान में कितने लोग सवार थे। इस विमान में अधिकतम सात सीट होती है। सोमवार शाम करीब साढे चार बजे से ठीक पहले स्टीमबोट स्प्रिंग्स

उ.कोरियाई सैनिकों के

द.कोरिया के जवानों ने

सियोल। दक्षिण कोरियाई सैनिकों

ने मंगलवार को उत्तर कोरिया के

जवानों द्वारा जमीनी सीमा पार किए

जाने के बाद चेतावनी के तौर पर

गोलियां चलाईं। दक्षिण कोरिया की

सेना ने यह जानकारी देते हुए बताया

कि इस माह में घुसपैठ की यह

दूसरी घटना है। दक्षिण कोरिया के

जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया

कि लगभग 20 से 30 उत्तर

कोरियाई सैनिक सीमा के उत्तरी छोर

पर किसी तरह के निर्माण कार्य में

जुटे हुए थे तथा उन्होंने सुबह आठ

बजकर 30 मिनट पर दोनों देशों को

अलग करने वाली सैन्य सीमा को

पार कर लिया।

सीमा पार करने पर

चलाई गोलियां

हवाई अड्डे के पास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में बताया कि मोबाइल होम पार्क के सभी निवासी सरक्षित हैं। आग ने कुछ बाहरी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। स्टीमबोट स्प्रिंग्स फायर रेस्क्यू ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान ने कोलोराडो के लोंगमोट से उडान भरी थी और वह यूटा के ओग्डेन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान में मशीन संबंधी कोई समस्या थी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड

बाइडन की नई योजना से अंततः पांच लाख अप्रवासियों को मिल सकती है अमेरिकी नागरिकता



मालदीव में भारतीय

माले। मालदीव की राजधानी में एक प्रमुख पुल की मरम्मत के दौरान एक

भारतीय श्रमिक की गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह

जानकारी दी।मई के बाद से देश में कार्यस्थल पर दुर्घटना में किसी भारतीय

नागरिक की मौत की यह दूसरी घटना है।पुलिस ने मृतक की पहचान के तौर

पर सिर्फ इतना ही बताया कि वह भारतीय नागरिक था। और कोई विवरण नहीं

दिया गया है। समाचार पोर्टल एसयूएन.एमवी के अनुसार सोमवार रात को

सिनामाले पुल पर मरम्मत कार्य के दौरान चक्कर आ जाने के कारण श्रमिक

पुल से गिर गया। पुलिस ने अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से बताया कि

उसे हुलहुमाले के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने

से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। समाचार पोर्टल ने बताया कि सिनामाले

पुल माले शहर को हुलहुले से जोडता है और इस पुल पर मरम्मत कार्य चीन

की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले तीन मई को 30 वर्षीय एक

भारतीय श्रमिक की खुदाई कार्य के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने उस समय

बताया था कि भारतीय युवक हुलहुमाले में नदी की सफाई करने वाली नौका

ड्रेजर को संचालित करने के दौरान घायल हो गया था। उस समय भी पुलिस ने

श्रमिक की मौत

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चुनावी वर्ष में एक व्यापक कदम उठा रहे हैं जिससे अब तक बिना किसी वैध स्थिति के देश में रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिल सकती है और उनको अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इस कदम को महीने की शुरुआत में सीमा पर उनके द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति को संतुलित करने के

बाइडन और ट्रंप के चुनावी मुकबले में मीम की सियासत

वाशिंगटन। राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी मुक्तबले में सोशल मीडिया केसाथ ही अब डिजिटल मीम की सियासत भी जमकर हो रही है जहां बाइंडन को सुपरहीरो शृंखला बैटमैन से संबंधित पात्र डार्क ब्रैंडन के रूप में मुस्कराते हुए देखा जा सकता है तो ट्रंप के चेहरे वा इस्तेमाल एचबीओ वी मशहूर शृंखला गेम ऑफशोन्स केएकदृश्य में कर उन्हें ताक्तवर दर्शाया गया है।डेमोकेटिक राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पर्व राष्ट्रपति के प्रचार अभियान में दोनों की छवियों को मीम के जरिए भी आक्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। बाइडन के अभियान दल ने तो हाल में मीम पेजों के प्रबंधक के लिए एक नौकरी भी निकाली।अमेरिका में लाखों लोग इस चुनाव केलिए प्राथमिक सूचना स्रोत केरूप में सोशल मीडिया व्य उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में मीम्स व्वी लड़ाई भी नवंबर मे आने वाले परिणाम पर प्रभाव डाल सकती है।व्हर्ड अमेरिकी नागरिको का यह भी कहना है कि वे बाइडन और ट्रंप के बीच दोबारा होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साहित नहीं है। डिजिटल माध्यमो पर आश्रित रहने वी बढती आदतो के करण प्रकशनो या टेलीविजन जैसे राजनीतिक विज्ञापनो के पारंपरिक माध्यमो से लोगो तक पहुंचना व्वटिन हो गया है। ऐसे मे लिखित संदेश या लंबे वीडियो के बजाय मीम काफी प्रभावशाली साबित हो रहे हैं।

प्रतिबंधों से निपटने के लिए उत्तर केरिया

के साथ मिलकर काम करेंगे : पुतिन

डेमोक्रेटिक सांसदों को नाराज कर की कि बाइडन प्रशासन आने वाले दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह

उनके आक्रामक रुख ने कई व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा

लिए किम जोंग उन को धन्यवाद

किया और कहा कि दोनों देश

अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से

निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे।

पुतिन दो दिवसीय यात्रा के लिए उत्तर

कोरिया पहुंच रहे हैं और उत्तर कोरिया

के सरकारी मीडिया में उनकी यह

टिप्पणी प्रकाशित की गई है। उनकी

दोनों देश अमेरिका के साथ तनातनी

का सामाना कर रहे हैं और पूरी दुनिया

से अलग-थलग पड़ गए है।

रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवनसाथियों को स्थाई निवास और अंतत: नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक अप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो तथा उसका किसी

अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए। यदि किसी अर्हता प्राप्त अप्रवासी का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा, तथा उसे अस्थाई कार्य परिमट प्राप्त होगा और इस बीच उसे निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुविकल श्री सौरभ गर्ग प्रॉपर्टी बियरिंग न्यू नंबर S-16 पुराना नं.S-33/28 के मालिक हैं। क्षेत्रफल 66 वर्ग गज यानी

पुराना न 3-33/20 के मालक है। वात्रकल 60 पन नेज पाना 55.18 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 123 से बाहर, ग्राम घोंडा चौहान बांगर का क्षेत्र, मेन रोड, ब्रह्मपुरी, इलाका शाहदरा की आबादी में

विक्रय विलेख दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से । श्री सौरम गर के पक्ष में पंजीकृत संख्या 421, SR-IV, दिल्ली दिनांक 10.02

2023। यह उपरोक्त संपत्ति फेंड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंधक होने जा रही है। यदि किसी

व्यक्ति / बैंक / वितीय संस्थान के पास सपरोक्त संपत्ति के संबंध

में कोई दावा / ग्रहणाधिकार, अधिकार, कोई आपत्ति है, तो उर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख र

करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर

दिया गया माना जाएगा। एडवोकेट विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़ डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092, मो. 9811215181

दिल्ली- 110092 के पते पर स

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशिय असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क पयोग करके कर्जदार आकाश प्रॉपराइटर शालीमार टेंट एंड कैटरर्स और शिखा अग्रवा को 25.05.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOI00336997 की राशि रू.18,67,422.47/- (रुपए अठारह लाख सइसठ हजार चार सौ बाईस और सैंतालीस पैसे मात्र) और 13.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामा-जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.06.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततृद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए ग्रवधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.18,67,422.47/- (रुपए अठारह लाख** सइसठ हजार चार सौ बाईस और सैंतालीस पैसे मात्र) 13.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

- 01(एम.आई.जा.) तल मंजिल पर (रूफ राइट्स के बिना) , सामने की 600 स्के.फीट जो 55.74 स्के.मी. के बराबर, प्लॉट नं.ए-109, ब्लॉक -ए, खसरा नं.392 में से 'एस.एल.एफ. वेद विहार, गाँव सहुलाबाद के रेवेन्यू एस्टेट में, परगना लोनी, तहसील और जिल

दिनांक:13.06.2024

प्राधिकृत अधिकारी



Ghar Ki Baat

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब गढ़िन के मीतर प्रोकृत अधिबना के माध्यम से सलावकार, अधोहस्ताक्षरी विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़्ड्स, की

तयः 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, 200, वेबसाइटः www.pnbhousing.com, सीआईएन नं.: L65922DL1988PLC033856

नोटिस - अचल संपत्तियों की बिक्री

हम नीचे दिए गए पते पर शाखा कार्यालय के लिए अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए आम जनता से बोलियाँ आमंत्रित कर रहे हैं:-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तृतीय तल, अंतरिक्ष मवन, 22 केजी मार्ग, नई

इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे निविदा अनुभाग के अंतर्गत विस्तृत

जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pnbhousing.com पर जाएँ।

आवेदन/बिल्ड फॉर्म हमारी वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड किसी भी कारण से किसी भी बोली को अस्वीकार/स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")

दिनांक : 13.06.2024

स्थान : ग्रेटर नोएडा

CIN : LI65993DI 2002PI C115769 पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, 4CRE नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,नेबसाइट: www.acreindia.in कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66,

> कब्जा सचन (अचल संपत्ति हेत्)

जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051. फोन: 022 68643101

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड (CIN:U65993DL2002PLC115769) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अजय जुगरान और मोना जुयाल जुगरान को 21.02.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00244656 की राशि रू. 61,57,872.11 (रूपये इकसठ लाख सत्तावन हजार आठ सौ बहत्तर और ग्यारह पैसे मात्र) और 06.02.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सुचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.06.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए प्रावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 61,57,872.11 (रूप<mark>ये इकसठ लाख</mark> <mark>सत्तावन हजार आठ सौ बहत्तर और ग्यारह पैसे मात्र) 06.02.2024</mark> के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

"इको विलेज 4" नामक परियोजना में, ब्लॉक एच-4 में, सातवीं मंजिल पर, फ्लैट/यूनिट नं. 705, जिसका सुपर एरिया 1660 स्क्वे. फीट, जिसमें एक कवर्ड कार पार्किंग, प्लॉट संख्या जीएच-01 में स्थित, सेक्टर 16-बी. ग्रेटर नोएडा-201301. उत्तर प्रदेश ।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनाक 18 जून, 2024 स्थानः नई दिल्ली

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

शिनावात्रा पर राजतंत्र को बदनाम करने के आरोप में चलेगा मुकदमा

इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी थी।

बदनाम करने के आरोप में मंगलवार को प्रक्रिया पूरी की गई। थकसिन 18 वर्ष औपचारिक रूप से अभियोग दर्ज किया गया। इसके साथ ही इस तरह एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती के बढते अदालती मामलों ने थाईलैंड हैं।माना जा रहा है कि थकसिन एक की राजनीति में अस्थिरता पैदा कर दी कार में सवार होकर बैंकॉक के अपराध है।अटॉर्नी जनरल कार्यालय के प्रवक्ता संबोधित करते हुए कहा कि थकसिन

पहले सत्ता से बेदखल होने के बावजुद नहीं है कि वह न्यायालय गए थे या पास

बैंकॉक। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अभियोजकों के समक्ष अपनी वकील विन्यात चैतमोंत्री ने संवाददाताओं थकसिन शिनावात्रा पर राजतंत्र को उपस्थिति दर्ज कराई और अभियोग को बताया कि थकसिन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जमानत पर रिहाई के लिए अर्जी तैयार कर ली की जेल की सजा हो सकती है। इस कानून और यह दुनिया के इस तरह के सबसे

पहुंचे। हालांकि, वह प्रयुथ बेजरागुना ने संवाददाताओं को संवाददाताओं से नहीं मिले और यह स्पष्ट को लेसे मैजेस्टे के नाम से जाना जाता है ने सुबह नौ बजे से कुछ मिनट पहले के अभियोजक कार्यालय में गए।उनके कठोर कानुनों में से एक है।

आपके पैरों में सूइयां क्यों चुभती हैं?

भाषा। गोल्ड कोस्ट

जब आप बैठते हैं तो आपके पैरों में सुइयां जैसी क्यों चुभती हैं ?मेलबर्न में रहने वाली चार वर्ष की बोनी ने यह सवाल पूछा है। यह बहुत अच्छा सवाल है, बोनी। ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे हमें अपने शरीर के अंदर चुभन या झुनझुनी महसूस हो सकती है। कभी-कभी यह अहसास तब होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं या खुद को चोट पहुंचा लेते हैं।

यह विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के कारण, या हमारे जीन के कारण भी हो सकता है (हमें अपने जीन अपने माता-पिता से विरासत में मिलते हैं)।जब हम बहुत लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, या जब हम अपने शरीर के किसी विशेष हिस्से, जैसे कि अपने पैरों होती हैं जो हमारे मस्तिष्क और से नजर डालें और वे।

क्या आप कमी बिस्तर पर सुन्न हाथ के साथ उठे है?

फिर, जब आप उठते हैं, तो रक्त वाहिकाएं तुरंत खुल जाती हैं, और रक्त उस क्षेत्र में चला जाता है और तंत्रिकाओं को जगा देता है। फिर नसें अपने विद्युत संकेतों को सिक्रय करना शुरू कर सकती हैं। जैसे ही वे जागते हैं, हमें एक अजीब सा एहसास होता है। यह पिन और सुइयों की अनुभूति है। अक्सर, वह क्षेत्र सन्न भी महसूस हो सकता है, या हिलना-डुलना थोड़ा कठिन हो सकता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैइस झुनझुनी, चुभन या सुन्तता के लिए चिकित्सा शब्दे पेरेस्टेसियौ है।कुछ लोगों को ए एहसास थोड़ा डरावना लग सकता है. लेकिन आमतौर पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

को ज्यादा जोर से मसलते हैं, तो हमें शरीर के बीच विद्युत संकेत - मूल चुभन और सुइयों का अनुभव हो सकता है। आपने इसी बारे में पूछा है, इसलिए हम इस लेख में इसी बारे में बात करेंगे।चुभन और सुइयों की अनुभूति, जिसे आप ैझुनझुनौ भी कह सकते हैं, हमारी नसों से आती है।नसें विशेष कोशिकाओं से बनी

रूप से संदेश - भेजती हैं।

इसलिए नसें हमारे मस्तिष्क इसलिए नस हमार मास्तव्क Late Janki Devi को हमारी मांसपेशियों और शरीर विsour of Devender Kumar, Neeraj Kumar and Rajiv के अन्य हिस्सों से संवाद करने में मदद करती हैं ताकि गति जैसी चीजों को नियंत्रित किया जा सके। आइए तंत्रिकाओं पर करीब

गिरफ्तार किया कोलंबो। श्रीलंका की समुद्री सीमा

उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग

में शिखर सम्मेलन के लिए खाना होने

से पहले मंगलवार को रूस के

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युक्रेन पर

उनकी कार्वाई का समर्थन करने के

श्रीलंक की नौसेना ने चार

भारतीय मछआरों को

भाषा। सियोल

में मंगलवार तड़के कथित रूप से मछली पकडने को लेकर श्रीलंकाई नौसेना ने चार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौका जब्त कर ली। इसके साथ ही, इस साल ऐसी गिरफ्तारियों की संख्या बढकर 180 से अधिक हो गई है। श्रीलंकाई नौसेना ने यहां जारी एक बयान में कहा भारतीयों द्वारा कथित रूप से मछली पकड़ने की इस हालिया घटना में मंगलवार तड़के जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी डेल्फ्ट टापू के पास एक नौका जब्त कर ली गई तथा तथा चार मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारियों समेत, श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से कथित रूप से मछली पकड़ने को लेकर इस साल अब तक कुल 182 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया।

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that my client Ravinder Jain, Narender Jain, Arvind Jain and Adarsh Jain are in process to avail the credit facility against their Eastern Side portion Built up Property bearing No. 4-B, Area Measuring 504.50 Sq. Yds., Situated at Flag Staff Road, Civil Lines, Delhi-110054 acquired the same Sale Deed dated 27.06.2007 executed by S.S. Jain (Doc. No. 3750), whereas they have lost the below, chain of decoments, portaining to the said low chain of documents pertaining to the sain property: -1. Copy of Sale Deed dated 08.03.1945 executed by Daulatt Ram Gupta in favour of A.A Rushdie (Doc

by Usulatt Kam Lupta in Tavour of A. A Rushole Luoc No. 355)

2. Copy of Will dated 01.02.1996 executed by PyareLall in favour of Devender Kumar, Neeraj Kumar and Rajiv Kumar (Doc No. 6083)

3. Copy of Death Certificate dated 28.08.1996 of Late PyareLall

4. Copy of Legal heir certificate of Late PyareLall

5. Copy of death certificate dated 29.05.1984 of Late Janki Devi

ase intimate to undersigned within 7 days **Kamal Kant Gupta (Advocate)** Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

एसेट केअर एंड रिकन्स्टक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड के आधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

असेटस केअर एन्ड रिकन्स्टक्शन एन्टरप्राइजेस लि. (102-ट्रस्ट)

पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईएन नं.: L65929DL1947PLC001240; वेबसाइट: www.pnbfinanceandindustries.com पंजीकृत कार्यः - प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 टेलीफोनः +91-7303495375, ई-मेलः pnbfinanceindustries@gmail.com

> 129वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 129वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, जुलाई 10, 2024 को सुबह 10:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग ('वीसी'') सुविधा के माध्यम से बुलाई जाएगी, बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के एक सामान्य स्थल पर, 129वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्न सं. 20/2020, 02/2022 और 10/2022 के साथ पठित, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 के साथ पठित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के अनुपालन में और भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक oz अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपन्न'' के रूप में संदर्भित)।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 18 जून, 2024 को उन सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ईमेल-आईडी 14 जून, 2024 तक डिपॉजिटरी / कंपनी के पास पंजीकृत हैं। यह संचार और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस कंपनी की वेबसाइटः www.pnbfinanceandindustries.com और एनडीएसएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों और शेयर ट्रांसफर पुस्तकों का रजिस्टर 04 जुलाई, 2024 से 10 जुलाई, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा। रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधान के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44, और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हारा जारी सामान्य बैठकों पर सिबिवीय मानक के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को इं-वोटिंग सुविवा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं का लाम उदाया है। सदस्य कंपनी द्वारा प्राप्त दूरस्थ ई—वोटिंग सेवाओं के संबंध में नीचे नोट कर सकते हैं: (i) 129वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदा

के माध्यम से निपटाए जाएंगे। (ii) रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः 06 जुलाई, 2024 (सुबह 9:00 बजे)

(iii) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय: 09 जुलाई, 2024 (शाम 5.00 बजे)

(iv) 129वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्घारित करने की कट—ऑफ तिथि 03 जुलाई, 2024 है

(v) सदस्य ध्यान दें कि (क) मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद NSDL द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वी.सी. सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। (ग) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदा होंगे। (घ) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने, बी.सी. सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन कट—ऑफ तिथि अर्थात 03 जुल 2024 से पहले शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एजीएम बुलाने की सूचना में दिए गए ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके अपना वोट डाल सकता है, जो कंपनी और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालाँकि, अगर व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग मे देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड, 'प्' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को निर्दिष्ट ईमेल आईडी - pallavid@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर –18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

हस्ता/ श्वेता सक्सेना निदेशक एवं कंपनी सन्नि